



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1947 (श0)  
(सं0 पटना 215) पटना, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 2025

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

25 फरवरी 2025

सं० नि.प्रा./ विविध. 1-04/2024-591—प्राधिकार की अधिसूचना संख्या— 2196 दिनांक 06.12.2024 द्वारा समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मतदाता सूची पर प्राप्त शिकायत के आलोक में उक्त समिति का निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 2307 दिनांक 26.12.2024 द्वारा स्थगित किया गया था।

2. अतः उक्त के आलोक में समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या— 2196 दिनांक 06.12.2024 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र— ई 1 में सूचना का प्रकाशन	01.03.2025 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	05.03.2025 (बुधवार) एवं 06.03.2025 (गुरुवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	07.03.2025 (शुक्रवार) एवं 08.03.2025 (शनिवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	11.03.2025 (मंगलवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.03.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	18.03.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	20.03.2025 (गुरुवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा- माइकिंग, डोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सरायरंजन निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 20.03.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।

5. अधिसूचना संख्या- 2196 दिनांक 06.12.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आदेश से,  
आशुतोष कुमार,  
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 215-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>